



Technocraft Industries (India) Limited

Registered Office: Plot No. 47 "Opus Centre", Second floor, Central Road, Opposite Tunga Paradise Hotel, MIDC, Andheri (East) Mumbai – 400 093, Maharashtra, India
Tel: 4098 2222/2340; Fax No. 2835 6559; **CIN:** L28120MH1992PLC069252
E-mail: investor@technocraftgroup.com ; website: www.technocraftgroup.com

April 21, 2021

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai- 400051
Ref: Script Name: TIIL

BSE Limited
Listing Department
P.J. Towers, 1st Floor,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001
Script Code: 532804

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper advertisement for Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published on April 21, 2021 in Business Standard (all editions) in English and Mumbai Lakshadweep (Mumbai Edition) in Marathi in respect of captioned subject.

Kindly take the same on your records

Thanking You,

Yours truly,

For Technocraft Industries (India) Limited

NEERA

J RAI

Neeraj Rai

Company Secretary

Digitally signed by NEERAJ RAI
DN: c=IN, ou=Personnel, cn=NEERAJ RAI
serialNumber=c7351502a658af9a015
3346f9fc2c2ba211271f78c1fbaab300
237f47b7, postalCode=400705,
23.4.20-dc1c358e9a88079e176692ea5
6668087925ba29a00ca87f780b6e4c218
c24528, st=Maharashtra
Date: 2021.04.21 12:57:58 +05'30'

IL&FS' giant corporate

A stretched rescue process reveals critical deficiencies in India Inc's corporate layering and resolution mechanism worsened by the pandemic

HANSI KARTHIK
Mumbai, 20 April

Scars of September 21, 2018, or India's financial sector's Black Friday up and not fade easily. Two major housing financiers — Dewan Housing Corporation and India Bulls Housing — saw over 55 per cent single-day crashes in their stock prices caused by fears of redemption in the debt market. That brought to fore that India's then largest non-banking finance company (NBFCs) — Infrastructure Leasing and Financial Services (IL&FS) — was neck-deep in crisis calling for a swift government intervention.

With over ₹1 trillion of loan due to mainly banks and mutual funds, preventing a systemic contagion was top priority. Nearly three years later, banker Uday Kotak, chairman of IL&FS's reconstituted board, is relieved that the aftermath was largely contained. An expense of October 1, 2018, Kotak and his seven-member team was induced to resolve the defunct lender's mammoth loan burden.

On April 15, the board announced that resolution was reached for 186 out of 347 subsidiaries, and it targets to resolve another 87,000 crore loans by September and eventually reduce the number of subsidiaries to double digits. For IL&FS in roads, highways, water and other infra projects, there's been some progress with respect to finding a buyer, though at heavily discounted valuations.

For the 18 entities marked as successful, eventually through the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) could be an option. On March 12, 2020, the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) approved the resolution and distribution framework for the IL&FS Group.

The problem is with 80 entities marked red where resolution even through the IBC process may be unsuccessful, eventually the businesses may have to be wound up and their investment values written off.

This is the plan but the prolonged impact of the Covid-19 pandemic may be a party spoiler. Even now, with state government holding back their annuity payments to SPVs because of pandemic-induced constraints, some are knocking at banks for help to restart their debts.

Ultimately how many "green" companies will remain operative is anyone's guess and even in this context, even achieving 60 per cent closure or resolution is not being granted, eventually it was an ambitious target.

"No framework exists under Indian law that pertains to or is included in its entirety apply in a group 'insolvency' scenario," Shah pointed out. Therefore, "proposals have to be obtained for each of these assets and treated independently for resolution. What was applied in one

ness of the group. "Money was flowing like water," said Kotak in the recent press briefing. Questions were also raised on how it was possible to create a combination of NBFC and several SPVs and create so many umbrellas under it. "This is the fundamental issue — how such an entity was allowed to be created as a function. There should have been enough laws to curb such complexities," he pointed out.

The IL&FS crisis was a surprise even to regulators. "Back then, CICs were only required to file annual returns with the RBI. There was no supervision or audit conducted on CICs," said N S Vishwanathan, former RBI deputy governor. Therefore, to have identified the problem and nip it at the bud would have been difficult.

Three years later, however, experts feel that reasonable learning has gone into the systemic activities of the group but down complex corporate structures and increasing transparency. "With the Tapan Ray committee recommending a stringent regulatory and supervisory framework, many of the loopholes have been plugged," Vishwanathan explained. Tapan Ray is a former secretary of the corporate affairs ministry who headed a working committee set up in November 2018 to review guidelines for CICs.

Also, Shah pointed out that the Companies Act 2013 has bequeathed upon the requirements on inter-corporate loans. The Companies Act 2013 provides a framework to regulate the loans and investments made between companies — by adding the requirement for a special resolution to lend for principal business activities of the group borrowing entity, payment of interest for intra-group borrowing and restricting investment to two layers in order to check the misuse of multiple layers of subsidiaries for diversion of funds," he explained.

Haribhakti is confident that it's almost impossible to create another IL&FS-like entity now. That said, Kotak remains sceptical. "It has continued to have intermingling of business groups and that creates a challenge. IL&FS highlights the challenges in India's financial services," he said at the press meeting. The impact of the pandemic, investor interest in buying distressed infrastructure projects and some government support are essential to decide which way the resolution efforts would swing.

Disclosure: Entities controlled by the Kotak family have a significant holding in Business Standard Pvt Ltd



Mapping the plot

- **Sept-18:** Financial crisis in IL&FS became apparent
- **Oct-18:** ₹1 trillion loan outstanding to lenders seen at risk
- **Government dismantles the existing board, new board chaired by Uday Kotak appointed**
- **New board presents resolution plan to investors**
- **Mar-20:** NCLAT approves resolution and distribution framework for IL&FS group
- **Apr-21:** ₹43,100 crore of loans resolved; includes ₹28,600 crore of receipts
- **₹14,350 crore of resolution and restructuring applications filed with awaiting approval of NCLT**
- **Overall recovery target increased from ₹56,000 crore to ₹61,000 crore**

Source: Press releases

Conflict zone: 60% trust state police over army

RITVIK SHARMA
New Delhi, 20 April

Three out of five people (60 per cent) in India's conflict-ridden zones have a greater trust in the state police than the paramilitary/army for their safety and security, according to a new report.

Thirty-nine per cent also believe that the police are corrupt in conflict-affected regions, while 20 per cent shared such a perception of the paramilitary/army, says the Status of Policing in India Report 2020-21.

The report — based on a survey by the Centre for Developing Studies (CDS), its research programme Lokniti, and advocacy group Common Cause, and supported by Tata Trusts and the Lal Family Foundation — covers left-wing extremism affected areas, the Northeast and Jammu and Kashmir.

Its earlier two reports in 2018 and 2019 focused on the perceptions of people in more than 20 states and on the working conditions of policemen, respectively.

Across the conflict-hit regions, a similar percentage of ordinary people (46) and the police (43) feel that the demands of Naxalites and insurgents are genuine but their methods are wrong.

The report also collates data from the past few decades, which show that between 2001 and 2019 more than 68,500 incidents of violence were reported in these regions out of which 23,283 civilians and security personnel lost their lives. Nearly 75 per cent of the incidents took place in the first decade, and about 45 per cent in the first five years.

In Jammu and Kashmir, the incidents of violence have lessened significantly since the 1990s and early 2000s with a marked decline in the number of casualties of civilians, security forces and terrorists despite a spate of attacks in the last five years.

In the red corridor, people cite inequality, injustice, exploitation and discrimination (14 per cent), followed by poverty (13) and unemployment (11) as the biggest reasons behind left-wing extremism.

Fifty-nine per cent people and 50 per cent

POLICE IN CONFLICT

(Findings from the Status of Policing in India Report, Volume I (2020-21))

Fear of...	Common people (%)		
	Yes	Not much	Not at all
Being beaten up by the police	35	20	39
Being arrested/detained by the police for no reason	33	19	43
Police coming to your house	27	19	46
Being falsely implicated in Naxalism/insurgency cases by police	24	17	49
Police destroying your belongings or property	21	14	56
Being killed by the police	20	15	55
Sexual harassment by the police	19	16	54


policemen believe that it is wrong to disregard human rights in the name of national security. However, a much higher percentage of police (44) than common people (25) believes that human rights can be ignored in the interest of national security.

There is also a divergence of views over harsh laws such as the Unlawful Activities (Prevention) Act and the National Security Act. While an overwhelming majority (60 per cent) of police personnel believes that these are vital in containing extremism, only 30 per cent of the people concur.

Three-fourths of policemen (75 per cent) feel that addressing the question of development and providing better facilities would be very useful in reducing conflict. As against 75 per cent of people, nine out of 10 people also think that increasing the number of personnel would help in this regard.

Sanjay Kumar, professor and former director of CDS, says that it is too early to track any changes in the popular perceptions of the police. And for a variety of reasons, including fear and hesitation on the part of

How unsafe is the locality for police personnel posted here?



Problem areas

Biggest problem in their area of residence	Common people (%)		
	Overall	UVE	Insurgency affected
Lack of development (school, roads, water, hospitals, etc.)	53	54	53
Unemployment	13	13	14
Naxalism/insurgency/underground/cast	7	10	1
Police and order	3	4	2

respondents, the latest report lacked views of Kashmiris on the same.

He, however, points out that people are more opinionated and critical of government policies in the left-wing affected regions because they come across Naxalites more often than the people of the Northeast do with extremists. "The similarity is clear. In both regions, people say that the lack of development is the main cause of Naxalism or insurgency," he says.

A second volume of the report will cover policing in the Covid-19 pandemic.

STAR ALLIANCE MEMBER

TENDER NOTICE

Air India invites bids from reputed vendors for outsourcing IT Services for the Air India Limited.

The close date of the Tender is **06.05.2021 at 3:00 pm**.

The prospective bidders should regularly visit the Air India website for any amendment issued till the close date of the tender. For other details may be downloaded from www.airindia.in. In case of any query, you may contact 011-25969638 / email : itenders@airindia.in

STU

STERILITE TECHNOLOGIES LIMITED

Head Office: 1, MIDC Industrial Area, Waluj, Aurangabad, Maharashtra - 431 138, India. CIN: L31300MR2009PLC028926 (Phone: +91 20 3051 4000, Fax: +91 20 3051 4113. Email: secretary@stultd.com, Website: www.stultd.com)

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Thursday, April 29, 2021, inter alia, to:**

1. Consider the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the year ended March 31, 2021.
2. Recommend final dividend, if any, for the financial year ended March 31, 2021.

The "Trading Window" for trading in the equity shares of the Company has been closed from April 29, 2021 to May 01, 2021, both days inclusive.

The information contained in this Notice is also available on www.stultd.com and www.bseindia.com.

For Sterilite Technologies Limited
sd/-
Amil Deshpande
Company Secretary
Date: April 20, 2021

Technocrat Industries (India) Limited

Reg. Office: Plot No. C/25, C/26, C/27, C/28, C/29, C/30, C/31, C/32, C/33, C/34, C/35, C/36, C/37, C/38, C/39, C/40, C/41, C/42, C/43, C/44, C/45, C/46, C/47, C/48, C/49, C/50, C/51, C/52, C/53, C/54, C/55, C/56, C/57, C/58, C/59, C/60, C/61, C/62, C/63, C/64, C/65, C/66, C/67, C/68, C/69, C/70, C/71, C/72, C/73, C/74, C/75, C/76, C/77, C/78, C/79, C/80, C/81, C/82, C/83, C/84, C/85, C/86, C/87, C/88, C/89, C/90, C/91, C/92, C/93, C/94, C/95, C/96, C/97, C/98, C/99, C/100, C/101, C/102, C/103, C/104, C/105, C/106, C/107, C/108, C/109, C/110, C/111, C/112, C/113, C/114, C/115, C/116, C/117, C/118, C/119, C/120, C/121, C/122, C/123, C/124, C/125, C/126, C/127, C/128, C/129, C/130, C/131, C/132, C/133, C/134, C/135, C/136, C/137, C/138, C/139, C/140, C/141, C/142, C/143, C/144, C/145, C/146, C/147, C/148, C/149, C/150, C/151, C/152, C/153, C/154, C/155, C/156, C/157, C/158, C/159, C/160, C/161, C/162, C/163, C/164, C/165, C/166, C/167, C/168, C/169, C/170, C/171, C/172, C/173, C/174, C/175, C/176, C/177, C/178, C/179, C/180, C/181, C/182, C/183, C/184, C/185, C/186, C/187, C/188, C/189, C/190, C/191, C/192, C/193, C/194, C/195, C/196, C/197, C/198, C/199, C/200, C/201, C/202, C/203, C/204, C/205, C/206, C/207, C/208, C/209, C/210, C/211, C/212, C/213, C/214, C/215, C/216, C/217, C/218, C/219, C/220, C/221, C/222, C/223, C/224, C/225, C/226, C/227, C/228, C/229, C/230, C/231, C/232, C/233, C/234, C/235, C/236, C/237, C/238, C/239, C/240, C/241, C/242, C/243, C/244, C/245, C/246, C/247, C/248, C/249, C/250, C/251, C/252, C/253, C/254, C/255, C/256, C/257, C/258, C/259, C/260, C/261, C/262, C/263, C/264, C/265, C/266, C/267, C/268, C/269, C/270, C/271, C/272, C/273, C/274, C/275, C/276, C/277, C/278, C/279, C/280, C/281, C/282, C/283, C/284, C/285, C/286, C/287, C/288, C/289, C/290, C/291, C/292, C/293, C/294, C/295, C/296, C/297, C/298, C/299, C/300, C/301, C/302, C/303, C/304, C/305, C/306, C/307, C/308, C/309, C/310, C/311, C/312, C/313, C/314, C/315, C/316, C/317, C/318, C/319, C/320, C/321, C/322, C/323, C/324, C/325, C/326, C/327, C/328, C/329, C/330, C/331, C/332, C/333, C/334, C/335, C/336, C/337, C/338, C/339, C/340, C/341, C/342, C/343, C/344, C/345, C/346, C/347, C/348, C/349, C/350, C/351, C/352, C/353, C/354, C/355, C/356, C/357, C/358, C/359, C/360, C/361, C/362, C/363, C/364, C/365, C/366, C/367, C/368, C/369, C/370, C/371, C/372, C/373, C/374, C/375, C/376, C/377, C/378, C/379, C/380, C/381, C/382, C/383, C/384, C/385, C/386, C/387, C/388, C/389, C/390, C/391, C/392, C/393, C/394, C/395, C/396, C/397, C/398, C/399, C/400, C/401, C/402, C/403, C/404, C/405, C/406, C/407, C/408, C/409, C/410, C/411, C/412, C/413, C/414, C/415, C/416, C/417, C/418, C/419, C/420, C/421, C/422, C/423, C/424, C/425, C/426, C/427, C/428, C/429, C/430, C/431, C/432, C/433, C/434, C/435, C/436, C/437, C/438, C/439, C/440, C/441, C/442, C/443, C/444, C/445, C/446, C/447, C/448, C/449, C/450, C/451, C/452, C/453, C/454, C/455, C/456, C/457, C/458, C/459, C/460, C/461, C/462, C/463, C/464, C/465, C/466, C/467, C/468, C/469, C/470, C/471, C/472, C/473, C/474, C/475, C/476, C/477, C/478, C/479, C/480, C/481, C/482, C/483, C/484, C/485, C/486, C/487, C/488, C/489, C/490, C/491, C/492, C/493, C/494, C/495, C/496, C/497, C/498, C/499, C/500, C/501, C/502, C/503, C/504, C/505, C/506, C/507, C/508, C/509, C/510, C/511, C/512, C/513, C/514, C/515, C/516, C/517, C/518, C/519, C/520, C/521, C/522, C/523, C/524, C/525, C/526, C/527, C/528, C/529, C/530, C/531, C/532, C/533, C/534, C/535, C/536, C/537, C/538, C/539, C/540, C/541, C/542, C/543, C/544, C/545, C/546, C/547, C/548, C/549, C/550, C/551, C/552, C/553, C/554, C/555, C/556, C/557, C/558, C/559, C/560, C/561, C/562, C/563, C/564, C/565, C/566, C/567, C/568, C/569, C/570, C/571, C/572, C/573, C/574, C/575, C/576, C/577, C/578, C/579, C/580, C/581, C/582, C/583, C/584, C/585, C/586, C/587, C/588, C/589, C/590, C/591, C/592, C/593, C/594, C/595, C/596, C/597, C/598, C/599, C/600, C/601, C/602, C/603, C/604, C/605, C/606, C/607, C/608, C/609, C/610, C/611, C/612, C/613, C/614, C/615, C/616, C/617, C/618, C/619, C/620, C/621, C/622, C/623, C/624, C/625, C/626, C/627, C/628, C/629, C/630, C/631, C/632, C/633, C/634, C/635, C/636, C/637, C/638, C/639, C/640, C/641, C/642, C/643, C/644, C/645, C/646, C/647, C/648, C/649, C/650, C/651, C/652, C/653, C/654, C/655, C/656, C/657, C/658, C/659, C/660, C/661, C/662, C/663, C/664, C/665, C/666, C/667, C/668, C/669, C/670, C/671, C/672, C/673, C/674, C/675, C/676, C/677, C/678, C/679, C/680, C/681, C/682, C/683, C/684, C/685, C/686, C/687, C/688, C/689, C/690, C/691, C/692, C/693, C/694, C/695, C/696, C/697, C/698, C/699, C/700, C/701, C/702, C/703, C/704, C/705, C/706, C/707, C/708, C/709, C/710, C/711, C/712, C/713, C/714, C/715, C/716, C/717, C/718, C/719, C/720, C/721, C/722, C/723, C/724, C/725, C/726, C/727, C/728, C/729, C/730, C/731, C/732, C/733, C/734, C/735, C/736, C/737, C/738, C/739, C/740, C/741, C/742, C/743, C/744, C/745, C/746, C/747, C/748, C/749, C/750, C/751, C/752, C/753, C/754, C/755, C/756, C/757, C/758, C/759, C/760, C/761, C/762, C/763, C/764, C/765, C/766, C/767, C/768, C/769, C/770, C/771, C/772, C/773, C/774, C/775, C/776, C/777, C/778, C/779, C/780, C/781, C/782, C/783, C/784, C/785, C/786, C/787, C/788, C/789, C/790, C/791, C/792, C/793, C/794, C/795, C/796, C/797, C/798, C/799, C/800, C/801, C/802, C/803, C/804, C/805, C/806, C/807, C/808, C/809, C/810, C/811, C/812, C/813, C/814, C/815, C/816, C/817, C/818, C/819, C/820, C/821, C/822, C/823, C/824, C/825, C/826, C/827, C/828, C/829, C/830, C/831, C/832, C/833, C/834, C/835, C/836, C/837, C/838, C/839, C/840, C/841, C/842, C/843, C/844, C/845, C/846, C/847, C/848, C/849, C/850, C/851, C/852, C/853, C/854, C/855, C/856, C/857, C/858, C/859, C/860, C/861, C/862, C/863, C/864, C/865, C/866, C/867, C/868, C/869, C/870, C/871, C/872, C/873, C/874, C/875, C/876, C/877, C/878, C/879, C/880, C/881, C/882, C/883, C/884, C/885, C/886, C/887, C/888, C/889, C/890, C/891, C/892, C/893, C/894, C/895, C/896, C/897, C/898, C/899, C/900, C/901, C/902, C/903, C/904, C/905, C/906, C/907, C/908, C/909, C/910, C/911, C/912, C/913, C/914, C/915, C/916, C/917, C/918, C/919, C/920, C/921, C/922, C/923, C/924, C/925, C/926, C/927, C/928, C/929, C/930, C/931, C/932, C/933, C/934, C/935, C/936, C/937, C/938, C/939, C/940, C/941, C/942, C/943, C/944, C/945, C/946, C/947, C/948, C/949, C/950, C/951, C/952, C/953, C/954, C/955, C/956, C/957, C/958, C/959, C/960, C/961, C/962, C/963, C/964, C/965, C/966, C/967, C/968, C/969, C/970, C/971, C/972, C/973, C/974, C/975, C/976, C/977, C/978, C/979, C/980, C/981, C/982, C/983, C/984, C/985, C/986, C/987, C/988, C/989, C/990, C/991, C/992, C/993, C/994, C/995, C/996, C/997, C/998, C/999, C/1000, C/1001, C/1002, C/1003, C/1004, C/1005, C/1006, C/1007, C/1008, C/1009, C/1010, C/1011, C/1012, C/1013, C/1014, C/1015, C/1016, C/1017, C/1018, C/1019, C/1020, C/1021, C/1022, C/1023, C/1024, C/1025, C/1026, C/1027, C/1028, C/1029, C/1030, C/1031, C/1032, C/1033, C/1034, C/1035, C/1036, C/1037, C/1038, C/1039, C/1040, C/1041, C/1042, C/1043, C/1044, C/1045, C/1046, C/1047, C/1048, C/1049, C/1050, C/1051, C/1052, C/1053, C/1054, C/1055, C/1056, C/1057, C/1058, C/1059, C/1060, C/1061, C/1062, C/1063, C/1064, C/1065, C/1066, C/1067, C/1068, C/1069, C/1070, C/1071, C/1072, C/1073, C/1074, C/1075, C/1076, C/1077, C/1078, C/1079, C/1080, C/1081, C/1082, C/1083, C/1084, C/1085, C/1086, C/1087, C/1088, C/1089, C/1090, C/1091, C/1092, C/1093, C/1094, C/1095, C/1096, C/1097, C/1098, C/1099, C/1100, C/1101, C/1102, C/1103, C/1104, C/1105, C/1106, C/1107, C/1108, C/1109, C/1110, C/1111, C/1112, C/1113, C/1114, C/1115, C/1116, C/1117, C/1118, C/1119, C/1120, C/1121, C/1122, C/1123, C/1124, C/1125, C/1126, C/1127, C/1128, C/1129, C/1130, C/1131, C/1132, C/1133, C/1134, C/1135, C/1136, C/1137, C/1138, C/1139, C/1140, C/1141, C/1142, C/1143, C/1144, C/1145, C/1146, C/1147, C/1148, C/1149, C/1150, C/1151, C/1152, C/1153, C/1154, C/1155, C/1156, C/1157, C/1158, C/1159, C/1160, C/1161, C/1162

तेलंगणा रात्रकालीन संचारबंदी

हेराबाद, दि. २० : प्रदीर्घ आगतिक कोरोना संकटादुःखी तेलंगणामध्ये निमाणे झालेली परिस्थिती, बाविल्याचा वादता आकाश आणि संचारगंगी वाढती तीतात आणि प्रसार लक्षाचे वेत राज्य सरकार रात्रकालीन संचारबंदी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. राश्यात रात्री ९ ते सकाळी ५ वाजेपर्यंत संचारबंदी असणार आहे. मात्र राज्य सरकारमध्ये अनुसूचित दैनंदिन सेवा आणि यादून सूट देण्यात आली आहे. शनिवार १ मे पर्यंत हे आदेश कायम असेल. सोम वारी ते तेलंगणा मुस्यवर्गीय आणि तेलंगणा राज्य संचारबंदी रात्रकालीन संचारबंदी होईल.

PUBLIC NOTICE. This is to bring to the notice of public at large that each share certificate are missing of the members of our society building known as 'Rawaj Bhanaw 6 & 7 Wing'. ... IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI. ... Description of Property: शासित वस्तर मालमना आधारेण वकीलद्वारे संचारण करतील.

राज वाचा 'मुंबई लक्षदीप'. मुंबईमधील फायनान्स लिमिटेड. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

पब्लिक कंपनीचे प्रगट्टे कंपनीमध्ये रूपांतरासाठी सूचना. शेवटचा संचालक, सहकारी मंडळ, पश्चिम क्षेत्र यांच्या सूचना. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

शेअरधारकांच्या यादीत बदल. शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

आर्जेन्टीन नोटीस. पुर्तगाली विसंश्लेषण करार करणे. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

HDB FINANCIAL SERVICES. शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI. ... Description of Property: शासित वस्तर मालमना आधारेण वकीलद्वारे संचारण करतील.

शेअरधारकांच्या यादीत बदल. शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

शेअरधारकांच्या यादीत बदल. शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

टेक्नालॉज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

शेअरधारकांच्या यादीत बदल. शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.

शेअरधारकांच्या यादीत बदल. शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल. ... शेअरधारकांच्या यादीत बदल.